

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

— 11 - भाग 3 - उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 1982/माघ 2, 1903

No. 26] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY, 22, 1982/MAGHA 2, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य संचालय

(वस्त्र विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1982

का.अ. 43(अ).—केंद्रीय सरकार, जूट कम्पनी (राष्ट्रीयकरण) अधि-
नियम, 1980 (1980 का 62) की धारा 2 क खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 1982 का उक्त अधिनियम की धारा 17 के प्रयोजनों
के लिए विनिर्दिष्ट तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है। निम्नलिखित जूट
कम्पनियों के स्वामियों के विरुद्ध दावा रखने वाली प्रत्येक व्यक्ति, ऐसा दावा
आयुक्त, चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, 1 नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता-700001 के
समक्ष पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 17 द्वारा विहित परिमिता काल के भीतर
करेगा।

1. एलेकजेंड्रा जूट मिल्स लिमिटेड, चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, 4. नेताजी
सुभाष मार्ग, कलकत्ता-700001

2. यूनियन जूट कंपनी लिमिटेड, चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग्स, 4 नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता-700001.
3. खर्दाह कंपनी लिमिटेड, रेड क्रॉस प्लेस, कलकत्ता-700002.
4. कीन्नीसन जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड, चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग्स, 4 नेताजीसुभाष मार्ग, कलकत्ता-700001.
5. आर. बी. एच. एम जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, पी.ओ. कटिहार मिल्स, कटिहार (बिहार) ।

[सं. 18/25/81-जूट]

ए. के. मूखर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 1982

S.O. 43(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of section 2 of the Jute Companies (Nationalisation) Act, 1980 (62 of 1980), the Central Government hereby specifies the 1st day of February, 1982, as the specified date for the purposes of section 17 of the said Act. Every person having a claim against the owners of the following jute companies shall prefer such claim before the Commissioner, Chartered Bank Buildings, 4, Netaji Subhas Road, Calcutta-700001 within the period of limitation prescribed by section 17 of the aforesaid Act ;

1. Alexandra Jute Mills Limited, Chartered Bank Buildings, 4, Netaji Subhas Road, Calcutta-700001.
2. Union Jute Company Limited, Chartered Bank Buildings, 4, Netaji Subhas Road, Calcutta-700001
3. Khardah Company Limited, 7, Red Cross Place, Calcutta-700001.
4. The Kinnison Jute Mills Company Limited, Chartered Bank Buildings, 4, Netaji Subhas Road, Calcutta-700001.
5. R. B. H. M. Jute Mills Private Limited, P. O. Katihar Mills, Katihar, (Bihar)

[No. 18/25/81-Jute]

A. K. MUKHERJEE, Jt. Secy.